



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.10.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा के समस्त पुलिस थानों/कार्यालयों में चलाया गया **!! स्वच्छता अभियान !!**

आज दिनांक 30.10.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस के समस्त थानों/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाकर थाना कार्यालय, बैरक, थाना परिसर, प्रशासनिक भवन, मेस, परिसर एवं विशेषकर खाली पड़े स्थानों पर बेतरतीब उगी हुई घास को काटा गया व गंदगी की साफ सफाई की गयी।

थानों पर कार्यरत कर्मियों द्वारा थाना परिसर के साथ-साथ बैरकों, मालखाना, मेस, थाना कार्यालय की साफ-सफाई के साथ शस्त्रों की सफाई भी की गयी साथ ही अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया तथा आमजनमानस को भी स्वच्छता का सन्देश देकर स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया।



एक कदम स्वच्छता की ओर



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 30.10.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महिला सुरक्षा विशेष दल (एण्टीरोमियो स्क्वाड) द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को महिला अधिकारों/महिला सुरक्षा के बारे में किया जा रहा है जागरूक -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे “मिशन शक्ति अभियान” के अंतर्गत गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक- 30.10.2022 को जनपद महोबा के समस्त थानों में गठित महिला सुरक्षा विशेष दल (एण्टीरोमियो स्क्वाड) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं गांव/सचिवालय में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया जिसमें महिला सुरक्षा विशेष दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, यूपी-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, साइबर हेल्पलाइन-1930 व **UP COP App** आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी पुलिस थाना/महिला हेल्पडेस्क को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 30.10.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शराब के गिरफ्तार अभियुक्ता- साथ 03 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 30.10.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह द्वारा मय हमराही की मदद से 03 नफर अभियुक्ता 1.बतीया पत्नी जड्डा उम्र करीब 42 वर्ष 2.संगीता पत्नी भारत उम्र करीब 48 वर्ष 3.सोनम पत्नी जीतू उम्र करीब 28 वर्ष को चुरारी कबूतरा डेरा ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्ता उपरोक्त के कब्जे से 03 प्लास्टिक की पिपिया मे क्रमशः 15-15 ली० कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 309/2022, 310/2022, 311/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह 2.कां० महेन्द्र सिंह यादव 3.म०कां० पिकी

गिरफ्तार अभियुक्ता-

- 1.बतीया पत्नी जड्डा उम्र करीब 42 वर्ष
- 2.संगीता पत्नी भारत उम्र करीब 48 वर्ष
- 3.सोनम पत्नी जीतू उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 30.10.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी टीम अवनीश कुमार यादव ने मय हमराही की मदद से परिवार सं० 549/22 138 NI ACT न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र बाबूलाल प्रजापति उम्र करीब 28 निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जिला महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार कर सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरज कुमार पुत्र बाबूलाल प्रजापति उम्र करीब 28 निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अवनीश कुमार यादव थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. कां० बिपिन कुमार यादव





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 30.10.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस